



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2010/पौष 30, 1931

No. 111]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2010/PAUSA 30, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2010

का.आ. 130(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के नरसिंहपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के 287.000 कि.मी. से 379.000) कि. मी. तक के भू-खण्ड (झांसी-लखनादौन सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप कलेक्टर, नरसिंहपुर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य के नरसिंहपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के किमी. 287.000 से 379.000 किमी. तक (झांसी-लखनादौन खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1		2	3	4	5	6	7
1	नरसिंहपुर	1. तेंदूखेडा	लोलरी	165/5, 165/15	निजी	असिंचित	0.006
				165/21	निजी	असिंचित	0.008
				165/60	निजी	असिंचित	0.006
				165/61	निजी	असिंचित	0.004
				165/62	निजी	असिंचित	0.004
				165/63	निजी	असिंचित	0.005
				165/64	निजी	असिंचित	0.004
				165/65	निजी	असिंचित	0.004
				165/50	निजी	असिंचित	0.003
				165/52	निजी	असिंचित	0.006
				163/22	निजी	असिंचित	0.007
				205/1	निजी	असिंचित	0.028
				205/9	निजी	असिंचित	0.008
		2. करेली	गोहावरी	10/1, 10/3	निजी	सिंचित	0.040
				10/5	निजी	सिंचित	0.070
				7/1	निजी	सिंचित	0.080
		3. नरसिंहपुर	(1) खमतारा	52/1क/9	निजी	गैरकास्त.	0.004
				52/1क/8	निजी	गैरकास्त.	0.002
				52/1क/10	निजी	गैरकास्त.	0.006
				52/1क/17	निजी	गैरकास्त.	0.038
				52/1झ	निजी	गैरकास्त.	0.002
				52/1ग	निजी	गैरकास्त.	0.090
				53/2घ	निजी	गैरकास्त.	0.010
				6/19	निजी	सिंचित	0.016
				6/26, 6/27	निजी	सिंचित	0.016
			(2) डोकरघाट	244	निजी	सिंचित	0.032
				191/1	निजी	सिंचित	0.060
			(3) मुरलीपौड़ी	164	निजी	सिंचित	0.226

			165	सरकारी	पानी	0.238
			166	निजी	सिंचित	0.240
			79/1	निजी	असिंचित	0.008
			78/2	निजी	असिंचित	0.004
		(4) महमदपुर	64	निजी	सिंचित	0.136
			63	निजी	सिंचित	0.048
			65/1	सरकारी	पानी	0.096
		(5) मुंगवानी	59/2	निजी	असिंचित	0.060
योग						1.615

[फा. सं. भारास्रा/11016/20/2006-एन-II (पार्ट)/353]

सुमेर सिंह गुलिया, उप-सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2010

S.O. 130(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No 26, in the stretch of land from Km 287.000 to Km. 379.000 (Jhansi- Lakhanadon Section) in District Narsinghpur in the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Deputy Collector, Narsinghpur, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.287.000 to Km.379.000 (Jhansi-Lakhnadon section) of the National Highway No. 26 in the State of Madhya Pradesh.

Serial number	Name of the district	Name of the Tehsil	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Narsinghpur	1.Tendukheda	Lolari	165/5, 165/15	Private	Unirrigated	0.006
				165/21	Private	Unirrigated	0.008
				165/60	Private	Unirrigated	0.006
				165/61	Private	Unirrigated	0.004
				165/62	Private	Unirrigated	0.004
				165/63	Private	Unirrigated	0.005
				165/64	Private	Unirrigated	0.004
				165/65	Private	Unirrigated	0.004
				165/50	Private	Unirrigated	0.003
				165/52	Private	Unirrigated	0.006
				163/22	Private	Unirrigated	0.007
				205/1	Private	Unirrigated	0.028
				205/9	Private	Unirrigated	0.008
		2. Kareli	Gohawari	10/1,10/3	Private	Irrigated	0.040
				10/5	Private	Irrigated	0.070
				7/1	Private	Irrigated	0.080
		3. Narsinghpur	(1) Khamtara	52/1Ka/9	Private	Diverted	0.004
				52/1Ka/8	Private	Diverted	0.002
				52/1Ka/10	Private	Diverted	0.006
				52/1Ka/17	Private	Diverted	0.038
				52/1Gya	Private	Diverted	0.002
				52/1Ga	Private	Diverted	0.090
				53/2Gha	Private	Diverted	0.010
				6/19	Private	Irrigated	0.016
				6/26,6/27	Private	Irrigated	0.016

			(2) Dokarghat	244	Private	Irrigated	0.032
				191/1	Private	Irrigated	0.060
			(3) Murlipondi	164	Private	Irrigated	0.226
				165	Government	Water	0.238
				166	Private	Irrigated	0.240
				79/1	Private	Unirrigated	0.008
				78/2	Private	Unirrigated	0.004
				(4)Mehmadpur	64	Private	Irrigated
			63		Private	Irrigated	0.048
			65/1		Government	Water	0.096
			(5) Mungawani	59/2	Private	Unirrigated	0.060
			Total				

[F. No. NHAI/11016/20/2006-N-II (pt.)/353]

S. S. GULIA, Dy. Secy.

246C.6/10-2